



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 25--अक्टूबर 31, 2003 (कार्तिक 3, 1925)

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25-OCTOBER 31, 2003 (KARTIKA 3, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और न्यायमय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिसूचनाओं की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं० ए० 12026/2/2003-प्रशा०-I (वि० वि०)—
राष्ट्रपति, भारतीय विधि सेवा के स्थायी अधिकारी, श्री टी०के० विश्वनाथन जो वर्तमान में भारत के विधि आयोग में सदस्य-सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, को दिनांक 7 अक्टूबर, 2003 से विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एन० एल० सीना,
संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (प्रशा०)

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 2003

सं० ए०-12034/2/2003-प्रशा० IV (वि०का०)—
राष्ट्रपति, श्री जार्ज बर्गीज को दिनांक 26-5-2003 से मान-

नीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (श्री पी०सी० थॉमस) के वैयक्तिक अनुभाग में रुपये 6,500—10,500 के वेतनमान में सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। श्री जार्ज बर्गीज की यह नियुक्ति माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री पी०सी० थॉमस के प्रसादपत्र और उनके कार्यकाल की सहवर्ती है।

रत्ना ललिता, अवर सचिव

दिनांक 30 सितम्बर 2003

सं० ए०-38012/1/2003-प्रशा०-IV (वि० का०)—
अधिवृष्टि की आयु होने पर विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, श्री आर० एस० भल्ला दिनांक 30 सितम्बर, 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

रत्ना ललिता, अवर सचिव

दिनांक 7 अक्टूबर, 2003

सं० ए-12023/9/2003-प्रशा०-III (वि० का०)—
राष्ट्रपति, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 252 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रेम
कुमार मल्होत्रा को दिनांक 19 सितम्बर 2003 के पूर्वाह्न से
अगले आदेशों तक आयकर अपील अधिकरण में न्यायिक
सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

रत्ना ललिता, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 अक्टूबर 2003

सं० 14016/8/2003-यू०टी०एस० II—संयुक्त सचिव
(यू० टी०), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा
दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम
10 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उपनियम
(2) के खंड (ग) के तहत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित पुलिस
निरीक्षकों को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निको-
बार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर
हवेली पुलिस सेवा के प्रविष्टि ग्रेड में, 6,500-200-10,500/-
रुपए के वेतनमान में, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर,
तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	रेज सं०	जन्म की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)

सर्वश्री

1.	हनुमान सिंह	डी-I-559	18-6-48
2.	वी० पी० पांडेय	—	1-2-52
3.	प्रेम सिंह पटवाल	डी-I-234	12-7-46
4.	विजय सिंह चौहान	डी-I-237	1-5-46
5.	रमेश चन्द्र गर्ग	डी-I-603	10-6-45
6.	सरदार सिंह	डी-I-240	12-11-45
7.	तुलसीराम मुद्गल	डी-I-175	30-4-48
8.	दया चन्द कौशिक	डी-I-533	9-6-47
9.	मदन मोहन	डी-I-244	7-4-47
10.	तेजपाल सिंह	डी-I-602	24-3-45
11.	विनोद कुमार सहगल	डी-I-245	1-11-47
12.	सुरेन्द्र कुमार	डी-I-257	1-1-46
13.	रामसिंह चौहान	डी-I-288	2-3-46
14.	सुरेन्द्र सिंह सन्धू	डी-I-300	5-7-47
15.	गुरचरण सिंह	डी-I-553	3-8-46
16.	मोहन लाल	डी-I-317	4-3-49
17.	सुमेर सिंह	डी-I-554	1-4-47

1	2	3	4
18.	रमेश सिंह	डी-I-338	18-12-45
19.	निरंजन सिंह	डी-I-99	2-2-47
20.	मोहिंदर सिंह विरदी	डी-I-353	22-6-48
21.	राजपाल	डी-I-526	1-1-46
22.	धर्मवीर गुप्ता	डी-I-371	2-1-49
23.	धर्म पाल	डी-I-527	3-10-44
24.	विजय कुमार मनचंदा	डी-I-394	25-12-46
25.	के० एस० पबला	—	22-6-51
26.	एस० एन० लाल	—	17-2-46
27.	मेहर सिंह	—	4-6-52
28.	एन० विक्रमन नैयर	डी-I-331	1-6-50
29.	एस० आर० चोयल	—	2-1-50
30.	के० आर० शर्मा	—	31-3-53
31.	डी० एस० सिंह	—	29-12-48
32.	वी० एस० पोकरयाल	—	19-4-50
33.	जयपाल सिंह	डी-I-406	2-2-47
34.	भल्ले राम	डी-I-537	8-5-47
35.	रमेश चन्द्र	डी-I-434	15-10-45
36.	रामफल शर्मा	डी-I-435	10-5-48
37.	विजय कुमार	डी-I-437	8-4-47

एन० जे० थॉमस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

सं० पी०एफ०/जी/177 प्रशा० V—राष्ट्रपति, श्री एच० जी०
गोयल, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, प्रधान निदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षा बोर्ड-I के पदेन
सदस्य का कार्यालय, नई दिल्ली को 8000-275-13500/-रु०
के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक
01-10-2003 के पूर्वाह्न से तीन वर्षों की अवधि के लिए
अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, गृह मंत्रालय में सहा
यक निदेशक (एफ सी आर ए) नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

दिनांक 10 अक्टूबर, 2003

सं० पी०एफ०/जी०/178-प्रशा० V—राष्ट्रपति, लोक सभा
सचिवालय के कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी
श्री तीर्थकर दास को 26-09-2003 के अपराह्न से तीन वर्ष
की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, इनमें जो भी
पहले हो, 8,000-275-13,500/- रु० के वेतनमान में गृह
मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक (एफ०
सी० आर० ए०) नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

नई दिल्ली-110066, दिनांक 30 सितम्बर 2003

सं० 34/4/2003-प्रशा० I—भारतीय सांख्यिकीय सेवा के श्री चन्द्र शेखर मिश्रा, को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय में दिनांक 30-9-2003 (पूर्वाह्न) से मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी के रूप में रु० 10,000-325-15,200 के वेतनमान में अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

भूपेन्द्र सिंह धूपिया, सहायक निदेशक (प्रशा०)

दिनांक 7 अक्तूबर 2003

सं० 67/1/2000-प्रशा०-I—गृह मंत्रालय के दिनांक 26 जून, 2003 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1-21023/20/2003-भा० पु० से०-3 के अनुसरण में श्री एस० प्रकाश, भा० पु० से० (ए० जी० एम० यू०-85), राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में उप निदेशक द्वारा दिनांक 31-8-2003 को प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त करने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात् यू० टी० डिवीजन, गृह मंत्रालय को आगे की तैनाती हेतु सौंपी जाती है। श्री एस० प्रकाश को दिनांक 1-9-2003 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से कार्यभार मुक्त किया जाता है।

भूपेन्द्र सिंह धूपिया, सहायक निदेशक (प्रशासन)

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्तूबर 2003

सं० 2/82/2003-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री सुरजित मित्रा, भा० प्रशा० सेवा (ए० एम० : 77) को दिनांक 8 सितम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

टी० के० मुद्गन, उप सचिव (प्रशासन)

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर 2003

सं० 11019/9/2003-अ०भा० से०(III)—राष्ट्रपति, यह निदेश देते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, पश्चिम बंगाल संवर्ग (1976) बैच के सदस्य श्री शुभेन्द्र राय का अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 के नियम 7(2) के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्याग-पत्र तत्काल प्रभाव से दिया हुआ समझा जाए।

अक़ील अहमद, उप सचिव

सं० 11019/9/2003-अ०भा० से०(III)—राष्ट्रपति, यह निदेश देते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग (1988) के सदस्य श्री के०वी० प्रसाद का अखिल भारतीय

सेवा (छुट्टी) नियामवली, 1955 के नियम 7(2) के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्याग-पत्र तत्काल प्रभाव से दिया गया समझा जाए।

अक़ील अहमद, उप सचिव

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2003

सं० 81 : (फा० सं० ए० 19014/4/2003-प्रशा० I)—भारत के राष्ट्रपति, डा०बी०एल० गर्ग को दिनांक 8-9-2003 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में सीमा शुल्क मूल्यांकक (टी०यू०) नियुक्त करते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्तूबर 2003

सं० 9 : (फा० सं० 4/19/2002-प्रशासन-1ग)—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को सामान्य प्रतिनियुक्ति शर्तों पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अधीन प्रवर्तन निदेशालय में 12,000-375-16,500 रु० के वेतनमान में चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर उप निदेशक नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	तैनाती का स्थान
सर्वश्री			
1.	अतुल वर्मा, भा०पु०से० (हिमाचल प्रदेश:91)	18-8-2003 (पूर्वाह्न)	दिल्ली
2.	ओ० पी० सिंह, भा०पु०से० (हरियाणा:91)	2-9-2003 (पूर्वाह्न)	जालन्धर

(श्रीमती) वी० रामाकृष्णन, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्तूबर 2003

सं० ए-12018/7/99-प्रशा०-I—इस विभाग की दिनांक 25-3-2003 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उप-नियंत्रक, लेखा सहायता एवं लेखा परीक्षा, श्री कृष्ण चन्द की 10,000-325-15,200 रु० के वेतनमान में तदर्थ नियुक्ति को 16-9-2003 से 28-2-2004 तक की छह माह की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

2. उप-नियंत्रक, लेखा सहायता एवं लेखा परीक्षा के पद पर श्री कृष्ण चन्द की उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति से उन्हें अगली श्रेणी में नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता निर्धारण या पदोन्नति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा उनकी तदर्थ नियुक्ति बिना कोई नोटिस दिए तथा बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं० ए-19011/14/2003 प्रशा०-II—राष्ट्रपति, श्री एम० प्रसाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा : 81) को 7-10-2003 (अपराह्न) से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में पांच वर्ष के सामान्य कार्यकाल के लिए या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

दिनांक 10 अक्टूबर 2003

सं० ए-12018/9/98-प्रशा०-1—इस विभाग की दिनांक 6-12-2000 की अधिसूचना सं० ए-12011/3/98-प्रशा०-1 के अनुक्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री के० वासुदेवन की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 7450-225-11500/- रु० के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी (बाह्य) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 1-12-2003 से 31-3-2004 तक बढ़ाई जाती है।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

सं० ए०-12018/9/98-प्रशा०-1—इस विभाग की दिनांक 27-3-2001 की अधिसूचना सं० ए०-12011/3/98-प्रशा०-1 के अनुक्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री टो० उद्यय कुमार की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 7450-225-11500/- रु० के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी (बाह्य) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 12-2-2004 से 31-3-2004 तक बढ़ायी जाती है।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं० 2/2/2003-करेंसी-II—राष्ट्रपति, श्री एस० एम० कुम्भरे, मुख्य नियंत्रण अधिकारी, करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड को 18 सितम्बर 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी प्रेस में 12000-375-16500/- रु० के वेतनमान में प्रबन्धक (नियंत्रण) (समूह 'क'—राजपत्रित) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

बैंकिंग प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2003

सं० ए-20012/50/72-स्थापना—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा, वित्त मंत्रालय में सहायक ग्रेड के स्थायी अधिकारी श्री जे० पी० शर्मा की अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि में दिनांक 30-9-03 तक और छः महीने की अवधि के लिए या नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, वृद्धि करते हैं।

डी० चौधरी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2003

सं० 29/2/99-डी आर टी—62 वर्ष की आयु पूरी करने पर श्री सी० रामबाबू, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, कटक, 11 अक्टूबर 2003 से पीठासीन अधिकारी का कार्यभार छोड़ देंगे। बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री डी० सी० ठाकुर, पीठासीन अधिकारी, डी आर टी-III कोलकाता को 11 अक्टूबर 2003 (अपराह्न) से अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के, अगले कार्यभार के साथ-साथ पीठासीन अधिकारी, डी आर टी, कटक का कार्यभार संभालने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

व्यय विभाग

महालेखा नियंत्रक

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2003

सं० ए-32013/8/2002/सुप ए/इड/1548-71—राष्ट्रपति, भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') भर्ती नियमावली, 1977 के नियम 24 के साथ पठित नियम 20(1)(i) के अंतर्गत निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (समूह 'ख') को 8000-275-13500/- रु० के भारतीय सिविल लेखा सेवा के कनिष्ठ समयमान के पदों पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं० नाम

सर्वे श्री

1. शंकर दास
2. प्रेम प्रकाश
3. एथोनी कुरियाकोम
4. पी० राजन
5. के० रामचन्द्र राव

6. के० एम० फिलिप्स
7. जे० एम० खुशवाहा
8. बी० एस० धनकर
9. के० सी० चाको
10. एन० डी० गर्ग
11. जे० एस० बेदी
12. सुख पाल शर्मा
13. गोविंद राम
14. एम० पाल राबर्ट
15. देव दत्त

दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं० 5(1)/93-स्थापना.—राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, श्री एस० आर० धनकानी को नियम 48(I-ए) (ए) तथा (बी) के साथ पठित केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम-48 के उप नियम (1) के प्रथम प्ररंतुक के खंड (क) की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि में छुट देते हुए दिनांक 01-10-2003 से सरकारी सेवा से उनकी स्वच्छिक सेवानिवृत्ति की मंजूरी देते हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष होगी।

एच० एन० नायर, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 2003

सं० 12/9/2003-ए० एस० ओ०—राष्ट्रपति जी श्री परिमल राय, भा० प्र० से० (ए० जी० एम० यू० : 85) को दिनांक 3-10-2003 (पूर्वाह्न) से कोयला राज्य मंत्री जी के कार्यकाल की अवधि के साथ समाप्त आधार पर अथवा जब तक कि उनका कार्यकाल कोयला राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में समाप्त न हो जाए अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिए कोयला राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) के निजी सचिव के रूप में निदेशक के समतुल्य पद पर नियुक्त किया जाता है।

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2003

सं० 11(21)/2002-स्थापना ()—राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में स्थायी सहायक श्री बी० के० श्रीवास्तव को दिनांक 29-9-2003 (पूर्वाह्न) से छह माह की अवधि अथवा जब तक नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध नहीं होता अथवा आगे आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए इसी सेवा तथा संवर्ग में तदर्थ आधार पर 6500-200-10500 रु० के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। अनुभाग अधिकारी ग्रेड में की गई इस तदर्थ नियुक्ति के आधार पर श्री बी० के० श्रीवास्तव, नियमित पदोन्नति के लिए किसी प्रकार के दावे के अधिकारी नहीं होंगे।

बाबू राम, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 2003

सं० ए-19011/9/2003-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री मुकेश निगम, आई० आर० टी० सं० (85) को दिनांक 9-9-2003 के अपराह्न से 14300-400-13300 रुपए के वेतनमान में पाँच वर्ष की अवधि के लिए या अगामी आदेश होने तक जो भी पहले हो, को भारी उद्योग विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० के० शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं० ए-19011/10/2003-प्रशा०—राष्ट्रपति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री विनय कुमार, सहायक को दिनांक 15-09-2003 के पूर्वाह्न से 7450-225-11500/- रु० के वेतनमान में तीन वर्ष की अवधि या अगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, को भारी उद्योग विभाग में सेवा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० के० शर्मा, अवर सचिव

लघु उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2003

सं० ए-18011/26/2003-स्था०—राष्ट्रपति, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव श्री रेवती सिंह, जो वर्तमान में लघु उद्योग मंत्रालय में कार्यरत हैं, को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30-09-2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

एच० आर० जोशी, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 18 सितम्बर 2003

सं० ए-32011/03/2003-प्रशा०-1(ए)—इस विभाग के दिनांक 7 मई, 2002, 20 मई, 2002 तथा 5 जुलाई, 2002 के आदेश सं० ए-12023/1/97-प्रशा०-1(ए) के अनुक्रम में सक्षम प्राधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों की 6500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 19-11-2003 तक अथवा नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं :

1. श्रीमती वी० पी० मादरा
2. श्री ए० सी० मलिक
3. श्री वी० के० शर्मा

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० 19011/7/99-भा० व० सेवा I—श्री श्यामल टिकदार, भा० व० सेवा (जीजे० 86) संयुक्त निदेशक (बाघ परियोजना), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने पर उनकी सेवाएं 2-8-2003 अक्टूबर से उनके मूल संवर्ग को वापस सौंपी जाती हैं।

एम० सूर्या प्रकाश, निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्टूबर 2003

सं० ए० 12025/2/2001-सी० एच० एस०-III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारी डा० जगदीश मेनन को परिवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 18-8-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक त्रिपुरा, पांडिचेरी में आर्थो-पेडिक शल्य चिकित्सा के सहायक प्रोफेसर के रूप में तैनात करते हैं।

यक्ष कुमार तलवाड़, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2003

सं० ए० 22012/5/99-स्थापना-I—डा० श्रीनिवास टाटा, आई सी एंड सी ई एस (1990), उप सचिव को उनका कार्य-काल पूरा होने के परिणामस्वरूप दिनांक 26 सितम्बर,

2003 के अक्टूबर से स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उनके कर्तव्य भार से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

डा० अनिल कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2003

सं० ए० 12025/141/99-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० ब्रज बिहारी प्रसाद को 10 अप्रैल, 2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000—275-13500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० ब्रज बिहारी प्रसाद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 अक्टूबर 2003

सं० ए० 12025/398/91-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० शोभना वर्मा को 22 अक्टूबर, 1991 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200—4000/- रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० शोभना वर्मा को उसी तारीख से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 12025/400/91-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० उमा टण्डन को 22 अक्टूबर, 1991 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200—4000 रुपये (संशोधन-पूर्व) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० उमा टण्डन को उसी तारीख से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 12025/149/98-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० विजय कुमार को 22-6-2001 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० विजय कुमार को उसी तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन तथा 29-1-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, लखनऊ के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 अक्टूबर 2003

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं० ए०-12025/155/94-सी०एच०एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० नमृता नैय्यर को 21-9-94 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000/- रुपए (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० नमृता नैय्यर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए०-12025/80/2001-सी०एच०एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० राकेश रंजन को 16-5-2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13500/-रुपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० राकेश रंजन को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 32012/2/2003-सी० एच० एस०-I—केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी उप-संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों ने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर अपनी पदोन्नति के परिणामस्वरूप नीचे दिए गए अनुसार उनके नामों के सामने दी गई तारीखों को संबंधित संगठनों में चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया :—

अधिकारी का नाम	संगठन	चिकित्सा अधिकारी के पद से कार्यभार छोड़ने की तारीख	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
----------------	-------	--	---

डॉ० ज्ञान प्रकाश	डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली।	8-12-2001 (पूर्वाह्न)	8-12-2001 (पूर्वाह्न)
------------------	--	-----------------------	-----------------------

डॉ० मृणाल कौशिक	डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली।	8-12-2001 (पूर्वाह्न)	8-12-2001 (पूर्वाह्न)
-----------------	--	-----------------------	-----------------------

डॉ० मनीषा मदान	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।	8-12-2001 (पूर्वाह्न)	8-12-2001 (पूर्वाह्न)
----------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० 19011/454/2002-स्था० V—सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 2-4-2003 के आदेश सं० 12015/2/जी ए जे/2003-आई एस एस के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री बो० बी० सिंह, संयुक्त निदेशक (ए-1) को, जो 3-7-2002 से भा०सां०से० के जे ए जी के रूप में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे थे, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 2-4-2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, भारतीय सांख्यिकी सेवा के जे०ए०जी० के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2003

सं० ए०-15011/2/2003-प्रशासन-1—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस विभाग के श्री एच० के० जगोष्ठा, अवर सचिव (सी एस एस), 30 सितम्बर, 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर० के० शर्मा, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं० ए०-32011-1/94-युवा सेवा-3—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय सेवा योजना संगठन में निम्नलिखित सहायक कार्यक्रम सलाहकारों को एतद्वारा उप कार्यक्रम सलाहकार (समूह 'क' राजपत्रित) के पद पर 12000-375-16,500/-रु० के वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है और यह पदोन्नति राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय केन्द्र में उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी :—

क्रम सं०	नाम
1.	सुश्री एंजेलिना
2.	श्री गोपाल जी
3.	श्री एस० के० साहनी

एम० एम० लाल, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2003

सं० 12025 (1)/4/94-स्था०—राष्ट्रपति, इस मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी श्री आर०सी० महापात्रा को 14-6-2003 से एक वर्ष की अवधि अथवा भर्ती नियम के प्रावधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई नियमित नियुक्ति तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपए

के वेतनमान में पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर उप-निदेशक के पद (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित गैर-मंत्रालयी) पर नियुक्त करते हैं।

यह नियुक्ति उन्हें उच्चतर ग्रेड में उनकी वरिष्ठता अथवा नियमित नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एस० के० गुप्ता, अवसर सचिव

सं० 19011/1/2003-स्था०—राष्ट्रपति, श्री एन० एस० तामर को दिनांक 26-4-2001 से उनकी परिवीक्षा अवधि सफापूर्वक पूर्ण होने पर इस मंत्रालय में 8,000-13,500/- रुपए के वेतनमान में अनुप्रधान अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, गैर मंत्रालयी) के मूल पद पर दिनांक 26-4-2003 में स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

एस० के० गुप्ता, अवसर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं० ए० 39013/1/1994-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, एतद्द्वारा श्री एलंगो श्रीपति, कर्मचारी कोड सं० 1150 का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, पाण्डिचेरी राज्य एकक में वैज्ञानिक-बी के पद से त्यागपत्र दिनांक 16 मार्च, 1994 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, संयुक्त निदेशक

दिनांक 3 सितम्बर 2003

सं० ए० 32013/1/1997-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, एतद्द्वारा श्री अमृत कुमार मोहपात्र, कर्मचारी कोड सं० 0967 का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उड़ीसा राज्य एकक, भुवनेश्वर में वैज्ञानिक-सी के पद से त्यागपत्र दिनांक 30 सितम्बर 1997 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, संयुक्त निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 सितम्बर 2003

सं० 4834/एनआईसी/2003-प्रशा०-II—महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एतद्द्वारा श्री बी० बी० रमन्ना मूति, (कर्मचारी कोड सं० 4834) का वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एस बी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 24 सितम्बर,

2003 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी० एस० पिल्लै, उप-निदेशक (प्रशा०-II)

दिनांक 6 अक्टूबर 2003

सं० 2642/एन आई सी/2003-प्रशा०-II—राष्ट्रपति, एतद्द्वारा श्रीमती रश्मी ध्यानी (कर्मचारी कोड सं० 2642) का वैज्ञानिक-बी के पद से त्यागपत्र दिनांक 30 जून, 2003 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी० एस० पिल्लै, उप निदेशक (प्रशासन-II)

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 सितम्बर 2003

सं० 36-3/2003-प्रशा०-I—राष्ट्रपति जी, श्री बी० के० सक्सेना, आई सी एवं सीईएस (87) को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) के विशेष कार्याधिकारी के रूप में निदेशक के स्तर पर (14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान में) उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 18-11-2003 तक अथवा राज्य मंत्री (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी) (श्री अशोक प्रधान) के विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्य करना छोड़ देने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, सहित नियुक्त करते हैं।

एम० एल० मिगलानी, उप सचिव (प्रशा०)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 05 अगस्त 2003

सं० ए-32014/2/2003-प्रशा०-II—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आणुशुक्ति सेवा के ग्रुप 'ग' के श्री एम० समीनाथन को इसी विभाग के संवर्ग में 5500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में तीन महीने की अवधि हेतु अर्थात् 1-07-03 से 30-09-03 तक अथवा निर्मित निजी सचिव (क और ख विलयित) उल्लेख होने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न निजी सचिव (क और ख विलयित) के पद पर बने रहने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त स्थानापन्न पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और उन्हें सीएसएसएस के 'क' और 'ख' ग्रेड (आमेलित) में आमेलन या वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

सतीश वधवा, अवसर सचिव (प्रशा०-II)

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं० 20-4/2003-एसटीजी-II—अत्यंत खेद के साथ सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित टीईएस समूह "बी" अधिकारी का देहान्त उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथि को हो गया :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	स्टाफ सं०	सर्किल का नाम	मृत्यु की तिथि
1.	मोहम्मद अहमद हुसैन	10084	एमटीएनएल मुम्बई	25-5-2003

राम अवतार, अवर सचिव

सं० 20-4/2003-एसटीजी-II—अत्यंत दुःख के साथ अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित टीईएस/टीटीएस समूह-ख अधिकारी को उनके नाम के आगे उल्लिखित तिथि को मृत्यु हो गई :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	स्टाफ नं०	सर्किल का नाम	जिस तिथि को मृत्यु हुई
1.	के०जे० जॉन्नी	14681	केरल	10-7-2003

राम अवतार, अवर सचिव

सं० 20-4/2003-एसटीजी-II—अत्यंत दुःख के साथ अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित टीईएस समूह-ख अधिकारी को उनके नाम के आगे उल्लिखित तिथि को मृत्यु हो गई है :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	स्टाफ नम्बर	सर्किल का नाम	जिस तिथि को मृत्यु हुई
01.	पी०के० सोमशेखर नागर	13275	केरल	25-08-2003

राम अवतार, अवर सचिव

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 अक्टूबर 2003

सं० 2-I/2002-प्रशासन—राष्ट्रपति, डाक विभाग संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई अवधियों के लिए वा, अब तक नियमित अधिकारी उपलब्ध

2-292 GI/2003

होते हैं, इनमें से जो जो पड़े हों, सूची-अवधि में तदर्थ आचार पर अनुभाग अधिकारियों के तौर पर स्थापना कर के कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

नाम	से	तक
श्री जगदीश प्रसाद (एससी)	1-7-2003	31-12-2003
श्री एस० आचार्य	1-7-2003	31-12-2003
श्रीसती रेणुका कुमार	1-7-2003	31-12-2003
श्री प्रेम नाथ (एससी)	1-7-2003	31-12-2003
श्री गणेश सिंह	1-7-2003	31-12-2003

2. उपर्युक्त नियुक्तियों से सम्बन्धित अधिकारियों को नियमित नियुक्ति के लिए कोई दवा नहीं मिलेगा और की गई तदर्थ सेवा प्रेड में वरिष्ठता आदि के प्रयोजन से नहीं विनोद जाएगी ।

जी० पी० पिल्लै, सहायक महाविदेशक (प्रशासन)

पर्यटन और संस्कृति विभाग

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2003

सं० एफ-6-13/2003-एन-1—श्री जय कुमार माथुर 8,000-13,500/- रु० के वेतनमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में उप संग्रहालयध्यक्ष (प्राक्-कोलम्बियाई और पश्चिमी कला) को 01-10-2003 के पूर्वार्द्ध से 6,500-10,800/- रु० के वेतनमान में संग्रहालय अधिकारी के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) कर दिया गया है ।

एम० सुबोरायन, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्टूबर 2003

सं० ई (जीपी) 2001/1/57—राष्ट्रपति जी भारतीय रेल लेखा विभाग के निम्नलिखित 3 ग्रुप "बी" अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 31-07-2003 से भारतीय रेल लेखा सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं ।

2002-2003 के लिए पैबल

क्र० सं० अधिकारियों का नाम

उत्तर पूर्व रेलवे

सर्व श्री

1. पी० सी० मोर

2. आइजक इन्दवर (अ० ज० जा०)

दक्षिण रेलवे

1. एस० सुब्रह्मण्यम

आर० आर० भंडारी, सचिव/विशेष बोर्ड

दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं० ई (जीपी) 2001/1/57—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल लेखा विभाग के पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के श्री डी० एन० मेट्टाचार्यजी ग्रुप “बी” अधिकारी की 31-7-2003 से भारतीय रेल लेखा सेवा के ग्रुप “ए” कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति करने के वास्ते सहर्ष अनुमोदन करते हैं।

आर० आर० भंडारी, सचिव/रेलवे बोर्ड

शुद्धि-पत्र

सं० ई (जीपी) 2001/1/57— इस कार्यालय की अधि-सूचना सं० ई(जीपी) 2001/1/57 दिनांक 3-9-2003 के पृष्ठ 2 में निम्नलिखित ग्रुप “बी” अधिकारियों का रेलवे, “दक्षिण मध्य रेलवे” के बजाय “पश्चिम रेलवे” पढ़ा जाए।

1. एस० एन० बन्सल
2. ए० आर० गुप्ता
3. पी० के० महेश्वरी
4. वी० एस० सुब्रमणियन
5. के० डी० शर्मा
6. नाथू लाल एम० (अ० जा०)

आर० आर० भंडारी, सचिव/रेलवे बोर्ड

दिनांक 10 अक्टूबर 2003

सं० ई आर बी I/2000/10/28—श्री एस० रघुनाथन, सलाहकार (गोपनीय), रेलवे बोर्ड, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30-9-2003 के पूर्वाह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर० आर० भंडारी, सचिव/रेलवे बोर्ड

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2003

सं० ए-12023/5/2003-स्था०-I—राष्ट्रपति, श्री अजय बिक्रमसिंह, भा० प्र० से० (उत्तरांचल : 67) को दिनांक 1-10-2003 (पूर्वाह्न) से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डा० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2003

सं० के 11011/37/99-डीडी ए—राष्ट्रपति, श्री जे० पी० एस० चावला, आई० सी० ए० एस० (85) को दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशक के स्तर पर मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर, उनके पदभार संभालने की तिथि से, पांच वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी हो, नियुक्त करते हैं।

परमजीत सिंह, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 7th October 2003

No. A. 12026/2/2003-Admn.I (L.D.).—The President is pleased to appoint Shri T.K. Viswanathan, a permanent Officer of the Indian Legal Service and at present working as Member Secretary in the Law Commission of India, as Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the 7th October, 2003.

N. L. MEENA, Jt. Secy. &
Legislative Counsel (Admn.)

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 8th September 2003

F.No. A. 12034/2/2003-Admn. IV(LA).— The President is pleased to appoint Shri George Varghese, as Assistant Private Secretary in the personal section of the Hon'ble Minister of State for Law & Justice (Shri P.C. Thomas) in the scale of pay of Rs. 6,500-10,500 w.e.f. 26.05.2003. The appointment of Shri George Varghese is at the pleasure of, and co-terminus with the tenure of Shri P.C. Thomas as Minister of State for Law & Justice.

RATNA LALITHA, Under Secy.

The 30th September 2003

A. 38012/1/2003-Adm. IV (LA).— On attaining the age of superannuation, Shri R.S. Bhalla Joint Secretary & Legal Advisor in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice stands retired from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2003.

RATNA LALITHA, Under Secy.

New Delhi, the 7th October 2003

No. A-12023/9/2003-Admn.III(LA).—In exercise of the powers conferred by Section 252 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the President is pleased to appoint Shri Prem Kumar Malhotra as Judicial Member of the Income Tax Appellate Tribunal with effect from the forenoon of 19th September 2003 and until further orders.

RATNA LALITHA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 1st October 2003

No. 14016/8/2003-UTS-II.— Under clause (c) of sub-rule (2) of rule 7, read with sub-rule (1) of rule 10 of the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar

Haveli (Police Service) Rules, 2003, Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Police of NCT of Delhi and Andaman & Nicobar Islands to the Entry Grade of National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years, with immediate effect:—

Sl. No.	Name of the officer	Range No.	Date of Birth
1.	Hanuman Singh	D-I-559	18.06.48
2.	V.P. Pandey	—	01.02.52
3.	Prem Singh Patwal	D-I-234	12.07.46
4.	Vijay Singh Chauhan	D-I-237	01.05.46
5.	Ramesh Chand Garg	D-I-603	10.06.45
6.	Sardar Singh	D-I-240	12.11.45
7.	Tulsiram Mudgal	D-I-175	30.04.48
8.	Daya Nand Kaushik	D-I-533	09.06.47
9.	Madan Mohan	D-I-244	07.04.47
10.	Tej Pal Singh	D-I-602	24.03.45
11.	Vinod Kumar Sahgal	D-I-245	01.11.47
12.	Surender Kumar	D-I-257	01.01.46
13.	Ram Singh Chauhan	D-I-288	02.03.46
14.	Surender Singh Sandhu	D-I-300	05.07.47
15.	Gurcharan Singh	D-I-553	03.08.46
16.	Mohan Lal	D-I-317	04.03.49
17.	Sumer Singh	D-I-554	01.04.47
18.	Ramesh Singh	D-I-338	18.12.45
19.	Niranjan Singh	D-I-99	02.02.47
20.	Mohinder Singh Viridi	D-I-353	22.06.48
21.	Rajpal	D-I-526	01.01.46
22.	Dharamvir Gupta	D-I-371	02.01.49
23.	Dharam Pal	D-I-527	03.10.44
24.	Vijay Kr. Manchanda	D-I-394	25.12.46
25.	K.S. Pabla	—	22.06.51
26.	S.N. Lall	—	17.02.46
27.	Mehar Singh	—	04.06.52
28.	N. Vikraman Nair	D-I-331	01.06.50
29.	S.R. Choyal	—	02.01.50
30.	K.R. Sharma	—	31.03.53
31.	D.S. Singh	—	29.12.48
32.	V.S. Pokryal	—	19.04.50
33.	Jaipal Singh	D-I-406	02.02.47
34.	Bhalley Ram	D-I-537	08.05.47
35.	Ramesh Chander	D-I-434	15.10.45
36.	Ramphal Sharma	D-I-435	10.05.48
37.	Vijay Kumar	D-I-437	08.04.47

N.J. THOMAS, Under Secy.

New Delhi, 9th October 2003

No. PF/G/177-Ad.V.— The President is pleased to appoint Shri H.G. Goel, Senior Audit Officer, O/o the Pr.

Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member Audit Board-I, New Delhi as Assistant Director (FCRA) in the Ministry of Home Affairs, in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- on deputation basis, for a period of three years with effect from the afternoon of 01-10-2003 or until further orders, whichever is earlier.

S.K. BHATNAGAR, Under Secretary

The 10th October 2003

No. PF/G/178-Ad. V.—The President is pleased to appoint Shri Tirthankar Das, Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer of Lok Sabha Secretariat as Assistant Director (FCRA) in the Ministry of Home Affairs, in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on deputation basis, for a period of three years with effect from the afternoon of 26.09.2003 or until further orders, whichever is earlier.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU

New Delhi-110066, the 30th September 2003

No. 34/4/2003-Ad-I.—Shri Chandra Shekhar Mishra of the Indian Statistical Services is appointed as Chief Statistical Officer in National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs w.e.f. the forenoon of 30.09.2003 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- until further orders.

B.S. DHUPIA, Asstt. Dir. (Admn.)

The, 7th October 2003

No. 67/1/2000-Ad.I/NCRB.—In pursuance of MHA O.M. No. I-21023/20/2003-IPS. III, dated 26th June 2003, the services of Shri S. Prakash, IPS (AGMU: 85), Dy. Director in the NCRB, are placed at the disposal of his parent cadre, i.e. UT Division, MHA for further posting on completion of his deputation tenure on 31.08.2003. Shri S. Prakash is relieved of his duties in NCRB w.e.f. 01.09.2003 (Forenoon).

B.S. DHUPIA, Asstt. Dir. (Admn.)

DEPARTMENT OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi, the 6th October 2003

No. 2/82/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Surajit Mitra, IAS(AM:77) as Joint Secretary in the Department of Development of North Eastern Region w.e.f. the afternoon of 8th September, 2003.

T.K. MURUGAN, Dy. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 8th October, 2003

No. 11019/9/2003-AIS-III.—The President is pleased to direct that Shri Subhendu Roy, a member of the IAS, borne on the cadre of West Bengal (1976) is deemed to have resigned from the Indian Administrative Service with immediate effect in term of rule 7(2) of the AIS (Leave) Rules, 1955.

AQEEL AHMAD, Dy. Secy

No. 11019/9/2003-AIS-III.—The President is pleased to direct that Shri K. V. Prasad, a member of the IAS, borne on the cadre of Bihar (1988) is deemed to have resigned from the Indian Administrative Service with immediate effect in terms of Rule 7(2) of the AIS (Leave) Rules, 1955.

AQEEL AHMAD, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 12th September, 2003

No. 81 (F.No. A.19014/4/2003-Ad.I).—The President of India is pleased to appoint Dr. B.L. Garg, as Customs Appraiser (TU) in the Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 8.9.2003 (FN) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy

New Delhi, the 7th October, 2003

No. 9 (F.No. 4/19/2002-Ad.IC).—The President is pleased to appoint the following IPS Officers as Deputy Director, Directorate of Enforcement under Foreign Exchange Management Act on Deputation basis on usual deputation terms in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier. —

S. No.	Name of the officer S/Shri	Date of Joining	Place of Posting
1.	Atul Verma, IPS (HP: 91)	18.08.2003 (FN)	Delhi
2.	O.P. Singh, IPS (HY: 92)	2.09.2003 (FN)	Jalandhar

(Mrs.) V. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 6th October, 2003

No. A. 12018/7/99-Ad.I.—In continuation of this Department's Notification of even number dated 25.3.2003,

ad-hoc appointment of Shri Krishan Chand, Deputy Controller of Aid Accounts & Audit in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the scale of Rs. 10000-325-15,200 is extended for a further period from 16.09.2003 to 28.2.2004 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The above ad-hoc appointment of Shri Krishan Chand to the post of Deputy Controller of Aid Accounts & Audit will not confer on him any right for regular appointment or seniority fixation and promotion in the next grade and his ad-hoc appointment can be terminated without giving any notice or assigning any reason.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

The 7th October 2003

No. A 19011/14/2003-Admn.II—The President is pleased to appoint Shri M. Prasad, IAS (HY:81), as Joint Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from 07.10.2003 (AN), for a normal tenure of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

The 10th October 2003

No. A. 12018/9/98-Ad.I—In continuation of this Department's Notification No. A-12011/3/98-Ad.I dated 06.12.2000, the Competent Authority has extended the term of deputation of Shri K. Vasudevan in the post of Section Officer (Excluded) in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs for a further period w.e.f. 1.12.2003 to 31.03.2004.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

No. A. 12018/9/98-Ad.I—In continuation of this Department's Notification No. A-12011/3/98-Ad.I dated 27.03.2001, the Competent Authority has extended the term of deputation of Shri T. Uthaya Kumar in the post of Section Officer (Excluded) in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs for a further period w.e.f. 12.02.2004 to 31.03.2004.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

New Delhi, the 7th October 2003

F. No. 2/2/2003-Cy. (III).—The President is pleased to appoint Shri S.M. Kumbhare, Chief Control Officer in Currency Note Press, Nashik Road as Manager (Control) (Group 'A'-Gazetted) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 in the same Press on regular basis with effect from the forenoon of 18th September, 03 and until further orders.

APARAJITA CHOWDHARY, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 25th September 2003

No. A-20012/50/72-Estt.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri J.P. Sharma, permanent officer of Assistant's Grade Central Secretariat Service, Cadre of the Ministry of Finance, as Section Officer further for a period of six months up to 30.9.2003 or till regular persons become available, whichever is earlier.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

New Delhi, the 9th October 2003

No. 29/2/99-DRT—On attaining the age of 62 years Shri C. Rambabu, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Cuttack will demit the charge of the post of Presiding Officer w.e.f. 11th October, 2003. In exercise of the powers conferred under Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 Sh. D.C. Thakur, Presiding Officer, DRT-III Kolkata is authorized to discharge the functions of Presiding Officer, DRT, Cuttack in addition to his own charge w.e.f. 11th October, 2003 (A.N.), until further orders whichever is earlier and without any additional remuneration.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS

New Delhi-110003, the 30th September 2003

No. A-32013/8/2002/Gr. A/Ind/1548-71—The President is pleased to appoint, on probation, the following Sr. Accounts Officers (Group 'B') to the Junior Time Scale of Rs. 8000-275-13500 of the Indian Civil Accounts Service, under Rule 20(1) (i) read with Rule 24 of the Indian Civil Accounts Service (Group 'A') Recruitment Rules, 1977 with effect from the dates of their taking over the charge of the posts in the JTS:—

S.No.	Name (S/Shri)
1.	Shankar Das
2.	Prem Prakash
3.	Anthony Kuriakose
4.	P. Rajan
5.	K. Ramachandra Rao
6.	K.M. Philips
7.	J.S. Khushwaha
8.	B.S. Dhankar
9.	K.C. Chacko
10.	N.D. Garg

1	2
11.	J.S. Bedi
12.	Sukh Pal Sharma
13.	Govind Ram
14.	M. Paul Robert
15.	Dev Dutt

The period of probation shall be two years.

H.N. NAYER

Jt. Controller Gen. of Accounts

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 03rd October 2003

No. 12/9/2003-ASO—The President is pleased to appoint Sh. Parimal Rai, IAS (AGMU:85) as Private Secretary to the Minister of State for Coal (Sh. Prahlad Singh Patel) as the level of Director with effect from 3.10.2003(F/N) on co-terminus basis or till he ceases to function as the Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

RAJIV SHARMA, Jt. Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 1st October 2003

No. 11(21)/2002-Estt.(.)—The President is pleased to appoint Shri B.K. Srivastava, a permanent Assistant in the CSS Cadre of the Ministry of Steel as Section Officer in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 on ad-hoc basis in the same service and cadre w.e.f. 29.9.2003(FN) for a period of six months or till a regular Section Officer becomes available or until further orders whichever is the earliest. Shri B.K. Srivastava will not have any claim what-so-ever for regular promotion by virtue of this ad-hoc appointment in the Section Officer grade.

BABOO RAM, Under Secy.

The 7th October 2003

No. 5(1)/93-Estt.—The President is pleased to allow Shri S.R. Dhankani, Senior Principal Private Secretary, Ministry of Steel to retire voluntarily from Government service, in relaxation of the prescribed notice period, in terms of Clause (a) of the first proviso to sub-rule (1) of Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972 read with Rule 48 (I-A)(a) and (b) of these rules, with effect from 1.10.2003.

BABOO RAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 9th September 2003

No. A-19011/9/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Mukesh Nigam, IRTS (85) as Director in the

Department of Heavy Industry in the pay scale of Rs. 14300-400-18300/- for a period of 5 years with effect from the afternoon of 9.9.2003 or until further orders, whichever is earlier.

K.K. SHARMA, Under Secy.

The 19th September 2003

No. A-19011/10/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Vinay Kumar, Assistant of CSS Cadre of Ministry of Information & Broadcasting Ministry, as Accounts Officer in the Department of Heavy Industry in the pay scale of Rs. 7450-225-11500 for a period of 3 years with effect from the forenoon of 15.09.2003 or until further orders, whichever is earlier.

K.K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 30th September 2003

No. A-18011/26/2003-Estt.—The President is pleased to permit Shri Reyti Singh, Senior Principal Private Secretary in the CSSS cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, presently working in the Ministry of Small Scale Industries to retire from Government Service with effect from the afternoon of 30.9.2003 on his attaining the age of superannuation.

H.R. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 18th September 2003

No. A. 32011/03/2003-Admn. I(A).—In continuation of this Department's Orders No. A. 12023/1/97-Admn.(A) dated 7th May, 2002, 20th May, 2002 and 5th July, 2002 the Competent Authority is pleased to extend the ad-hoc appointment of following permanent Assistants of CSS Cadre of the Ministry of Science and Technology as Section Officers in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in the Department of Science and Technology upto 19.11.2003 or till regular candidate joins, whichever is earlier.

1. Smt. V.P. Madra
2. Shri A.C. Mallick
3. Shri V.K. Sharma

T.N. DWIVEDI, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-3, the 19th August 2003

No. A-19011/7/99-IFS. I.—On completion of his tenure of deputation with the Central Government, the Services of Shri Shyamal Tikadar, IFS (GJ:86), Joint Director (Project Tiger) in the Ministry of Environment & Forests are placed

back to his parent cadre with effect from the afternoon of 2.8.2003.

M. SURYA PRAKASH, Director

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 6th October 2003

No. A. 12025/2/2001-CHS. III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Jagdish Menon, an Officer of the Specialist Grade II of the Teaching Sub-cadre of the Central Health Service on probation and to post him as Assistant Professor of Orthopaedics Surgery w.e.f. 18.08.2003 forenoon at JIPMER, Pondicherry until further orders.

Y.K. TALWAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 26th September 2003

No. A. 22012/5/99-Estt. I.—Consequent upon completion of his tenure at center, Dr. Srinivas Tata, IC&CES(1990), Deputy Secretary has been relieved of his duties in the Department of Health, Ministry of Health and Family Welfare with effect from the afternoon of 26th September, 2003.

DR. ANIL KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110011, the 30th September 2003

No. A. 12025/141/99-CHS I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Braj Bihari Prasad to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 10th April, 2000 until further orders. Dr. Braj Bihari Prasad is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 1st October 2003

No. A. 12025/398/91-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shobhana Varma to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200—4000 (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 22nd October, 1991 until further orders. Dr. Shobhana Varma is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Allahabad with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/400/91-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Uma Tandon to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200—4000 (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 22nd October, 1991 until further orders. Dr. Uma Tandon is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Allahabad with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/149/98-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vijay Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 22.06.2001. Dr. Vijay Kumar is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi with effect from the same date and under Central Government Health Scheme, Lucknow with effect from the forenoon of 29.06.2001 until further orders.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 3rd October 2003

No. A. 12025/155/94-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Namrita Nayyar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21.9.94 until further orders. Dr. Namrita Nayyar is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/80/2001-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rakesh Ranjan to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 16th May 2002 until further orders. Dr. Rakesh Ranjan is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 32012/2/2003-CHS. I.—Consequent on their promotion to the post of Senior Medical Officer, the following Officers belonging to the General Duty Medical Officer Sub-Cadre of the Central Health Service relinquished

the Charge of the post of Medical Officer and assumed the charge of the post of Senior Medical officer on the dates indicated against their respective names in the concerned organizations as indicated below:—

Sl. No.	Name of the Officer	Organisation	Date of Relinquishment of charge as MO	Date of Assumption of charge as SMO
1.	Dr. Gian Prakash	Dr. RML Hospital	8.12.01(FN)	8.12.01(FN)
2.	Dr. Mrinal Kaushik	Dr. RML Hospital	8.12.01(FN)	8.12.01(FN)
3.	Dr. Manisha Madan nee Verma	Safdarjang Hospital	8.12.01(FN)	8.12.01(FN)

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 7th October 2003

No. 19011/454/2002-E.V.—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's order No. 12015/2/JAG/2003-ISS dated 2.4.2003, the President is pleased to appoint Shri B.B. Singh, Joint Director (A. I) in the Department of Agriculture & Cooperation who was in the JAG of ISS on ad-hoc basis w.e.f. 3.7.2002, to the JAG of ISS on regular basis w.e.f. 2.4.2003 (FN), until further orders.

K.D. UPRETI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 30th September 2003

No. A-15011/3/2003 Admn. I—On attaining the age of superannuation, Shri H.K. Jagota, Under Secretary (CSS) in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 30th September 2003.

R. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 31st July 2003

No. 32011-1/94 YS III—The President is pleased to appoint the following Asstt. Programme Advisers on their promotion as Deputy Programme Adviser (Group A Gazetted) in National Service Scheme Organisation from the date they assume the charge of Deputy Programme Adviser :—

S. No.	Name
1.	Ms Angellina Wallang
2.	Sh. Gopal Ji
3.	Sh. S. K. Sawhney

M. M. LAL, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 29th September 2003

No. 12025(i)/4/94-Estt.—The President is pleased to appoint Shri R. C. Mahapatra, Research Officer of this Ministry to the post of Deputy Director {General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministrial} on purely temporary and ad-hoc basis in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 14.8.2003 for a period of one year or till the regular appointment is made by UPSC as per provision of Recruitment Rules or until further orders, whichever is earliest.

This appointment will not confer upon him any right for seniority or regular appointment in the higher grade.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. 19011/1/2003-Estt.—On successful completion of the period of his probation w.e.f. 26.4.2001, the President is pleased to confirm and appoint Shri N. S. Tomar, in the substantive capacity to the post of Research Officer {General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministrial} in this Ministry in the scale of Rs. 8,000-13,500/- w.e.f. 26.4.2003.

S. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 28th July 2003

No. A-39013/1/1994-Admn.-I—The President is pleased to accept the resignation of Shri Elango Sripathy, Emp-Code-1150, from the post of Scientist 'B', National Informatics Centre, Pondicherry State Unit, with effect from the afternoon of 16th March 1994 and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Jt. Director (Admn.)

The 3rd September 2003

No. A-39013/1/1997-Admn.-I—The President is pleased to accept the resignation of Shri Jayanta Kumar Mohapatra, Emp-Code-0967, from the post of Scientist 'C', National Informatics Centre, Orissa State Unit, Bhubaneswar, with effect from the afternoon of 30th September 1997 and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Jt. Director (Admn.)

New Delhi-110003, the 24th September 2003

No. 4834/NIC/2003-Adm. II—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. B.V. Ramana Moorthy (Emp. Code No. 4834) from the post of Scientific Officer/Engineer 'SB' with effect from the afternoon of

24th September 2003 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (Adm. II)

The 6th October 2003

No. 2642/NIC/2003-Adm. II—President is pleased to accept the resignation of Smt. Rashmi Dhyani (Emp. Code No. 2642) from the post of Scientist-B with effect from the afternoon of 30th June 2003 and she is relieved of her duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (Admn. II)

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

New Delhi-110 001, the 19th September 2003

No. 36-3/2003-Admn.-I—President is pleased to appoint Shri V. K. Saxena, IC&CES (87) as Officer on Special Duty to the Minister of State for Communications & Information Technology (Shri Ashok Pradhan) at the level of Director (Pay Scale of Rs. 14,300-400-18,300/-) with effect from the forenoon of 8th August 2003 for the balance period of his tenure i.e. upto 18-11-2006 or until he ceases to work as OSD to MOS (C&IT) (Shri Ashok Pradhan) or until further order, whichever happens earliest.

M. L. MIGLANI, Dy. Secy. (Admn.)

New Delhi-110 001, the 5th August 2003

No. A-32014/2/2003-Admn.-II—President is pleased to permit Shri M. Saminathan, Stenographer Grade 'C' of CSSS to continue to officiate as Private Secretary (A&B merged) on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the cadre of this Department for a period of 3 months from 01.07.2003 to 30.09.2003, or till the availability of regular Private Secretary (A&B Merged) or until further orders whichever is earlier.

2. The above officiation is purely on ad-hoc basis and will not confer on Shri Saminathan any right for absorption in the grade of Stenographer 'A&B' (Merged) of CSSS or seniority in the grade.

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn. II)

New Delhi-1, the 14th October 2003

No. 20-4/2003-STG-II—It is notified with deep regret that the following TES Group-B officer expired on the date mentioned against his name :—

Sl. No.	Name of the Officer	Staff Number	Name of the Circle	Expired on
1.	Shri Modd. Ahmad Hussain	100484	MTNL, Mumbai	25.05.2003

RAM AUTAR, Under Secy.

No. 20-4/2003-STG-II—It is notified with deep regret that the following TES Group-B officer expired on the date mentioned against his name :—

Sl. No.	Name of the Officer	Staff Number	Name of the Circle	Expired on
1.	Shri K. J. Jonny	14681	KRL	10.07.2003

RAM AUTAR, Under Secy.

No. 20-4/2003-STG-II—It is notified with deep regret that the following TES Group-B officer expired on the date mentioned against his name :—

Sl. No.	Name of the Officer	Staff Number	Name the Circle	Expired on
1.	Shri P.K. Soma-sekharan Nair	13275	Kerala	25.08.2000

RAM AUTAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 8th October 2003

No. 2-1/2002-Admn.—The President is pleased to permit the following Assistants of the cadre of Department of Posts to continue to officiate as Section Officers in the same cadre on ad-hoc basis for the periods mentioned against their names or, till regular officers become available, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	From	To
1.	Shri Jagdish Prasad (SC)	01.07.2003	31.12.2003
2.	Shri S. Acharya	01.07.2003	31.12.2003
3.	Smt. Renuka Kumar	01.07.2003	31.12.2003
4.	Shri Prem Nath (SC)	01.07.2003	31.12.2003
5.	Shri Ganesh Singh	01.07.2003	31.12.2003

2. The above appointments will not bestow upon the officers any claim for regular appointment and the ad-hoc service rendered will not count for the purpose of seniority etc. in the grade.

G. P. PILLAI, Asstt. Dir. Genl. (Admn.)

MINISTRY OF TOURISM & CULTURE

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 1st October 2003

No. F. 6-13/2003-M.I.—Dr. Vijay Kumar Mathur, Deputy Curator (Pre-Columbian & Western Art) in National Museum in pay scale of Rs. 8000-13,500/- is reverted to his substantive post of Museum Education Officer in pay scale

of Rs. 6500—10,500/- in National Museum with effect from 01.10.2003 (Forenoon).

M. SUBBARAYAN, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 6th October 2003

No. E(GP)/2001/1/57—The President is pleased to approve of the undermentioned 3 (Three) Group 'B' officers of Accounts Department of Indian Railways being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Accounts Service (IRAS) with effect from 31.7.2003, on the Railway mentioned.

PANEL FOR 2002-2003 Vacancies

S.No. Name of Officer

(S/Shri)

NORTH EASTERN RAILWAY:

1. P. C. Gaur
2. Issac Indwar (ST)

SOUTHERN RAILWAY:

1. S. Subramanian

R. R. BHANDARI, Secretary/Railway Board

The 7th October 2003

No. E(GP)/2001/1/57—The President is pleased to approve of Shri D. N. Bhattacharjee, a Group 'B' officer of Accounts Department of N. F. Railway, being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Accounts Service (IRAS) with effect from 31.7.2003, on that Railway.

R. R. BHANDARI, Secretary/Railway Board

CORRIGENDUM

No. E(GP)/2001/1/57—In page (2) of the Hindi version of this Ministry's Notification of even No. dated 3.9.2003,

the Railway of the following officers may be read as "पश्चिम रेलवे" instead of "दक्षिण मध्य रेलवे".

1. S. N. Bansal
2. A. R. Gupta
3. P.K. Maheshwari
4. V. S. Subramanian
5. K. D. Sharma
6. Nathulal M. (SC)

R. R. BHANDARI, Secretary/Railway Board

The 10th October 2003

No. ERB-I/2000/10/28.—Shri S. Regunathan, Adviser (Confidential) Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30.9.2003.

R. R. BHANDARI, Secretary/Railway Board

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 1st October 2003

No. A-12023/5/2003-E-I.—The President is pleased to appoint Shri Ajai Vikram Singh, IAS (UL:67) as Secretary, Ministry of Road Transport & Highways w.e.f. 1.10.2003(F.N.).

DR. N. C. KAUSHIK, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

(DELHI DIVISION)

New Delhi-110011, the 10th September 2003

No. K-11011/37/99-DDIA—The President is pleased to appoint Shri J.P.S. Chawla, ICAS (85) as Chief Accounts Officers in the Delhi Development Authority, as the level of Director, for a period of five years, from the date of his taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

PARMJIT SINGH, Desk Officer